

## राजभाषा विभाग की जनवरी, 2021 माह की मुख्य उपलब्धियां

- (1) राजभाषा विभाग तथा शिक्षा मंत्रालय की स्वैच्छिक संस्था केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा में आपसी समन्वय व सहयोग बढ़ाने की दिशा में 25 जनवरी, 2021 को बैठक की गई। इसमें हिंदी भाषा सीखने के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर 'लीला' को और अधिक प्रभावी व उपयोगी बनाने के लिए विचार मंथन किया गया।
- (2) मैंने 21 जनवरी, 2021 को ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, 27 जनवरी, 2021 को आवास और शहरी विकास निगम तथा दिनांक 28 जनवरी, 2021 को पावर फ़ाइनेंस कार्पोरेशन द्वारा दिल्ली में आयोजित हिंदी संगोष्ठी/कार्यशाला/बैठक में इन संस्थाओं के शीर्ष अधिकारियों सहित अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों को राजभाषा हिंदी में मूल कार्य करने के लिए प्रेरित किया। इन कार्यशालाओं में प्रधान मंत्री जी के स्मरणयुक्ति (mnemonics) व्यवहार को ध्यान में रखते हुए राजभाषा हिंदी के प्रभावी कार्यान्वयन में 12 'प्र' (प्रेरणा, प्रोत्साहन, प्रेम, प्राइज़, प्रशिक्षण, प्रयोग, प्रचार, प्रसार, प्रबंधन, प्रमोशन, प्रतिबद्धता और प्रयास) की भूमिका पर प्रकाश डाला गया।
- (3) केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान / हिन्दी शिक्षण योजना द्वारा हिंदी टंकण में 114, हिंदी कार्यशालाओं में 21 तथा अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 21 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया।
- (4) केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा जनवरी माह में 2,485 मानक पृष्ठों का अनुवाद कार्य किया गया।
- (5) केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो व इसके केन्द्रों द्वारा 03 त्वरित अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा 02 संक्षिप्त अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें कुल 268 प्रशिक्षार्थियों ने भाग लिया।
- (6) संसदीय राजभाषा समिति की तीनों उप समितियों द्वारा दिल्ली स्थित 78 कार्यालयों का निरीक्षण किया गया।
- (7) राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों द्वारा ऑनलाइन माध्यम से कुल 81 ई-निरीक्षण, 74 ई-बैठकें, 44 अन्य बैठकें /वेबिनार किए गए।
- (8) विभाग द्वारा 35 शिकायतों का निपटान किया गया।
- (9) केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के कनिष्ठ अनुवाद अधिकारियों के लिए कर्मचारी चयन आयोग द्वारा वर्ष 2019 में आयोजित परीक्षा में सफल हुए 169 उम्मीदवारों की नियुक्ति हेतु उनके dossiers मंत्रालयों/विभागों को भेजे गए।

\*\*\*\*\*